



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1160]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2015/ ज्येष्ठ 13, 1937

No.1160]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2015/JYAISTHA 13, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2015

का.आ. 1460(अ).—केंद्रीय सरकार, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996

का 27) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 16 नवंबर, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1616 (अ) तारीख 16 नवंबर, 2005 को, अधिकांत करते हुए नीचे दी गई सारणी (2) में उल्लिखित अधिकारियों को सरकार के राजपत्रित अधिकारी होने के कारण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जो उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता में प्रयोग करेंगे।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय) जयपुर, वडोदरा, भोपाल, लखनऊ, रांची, जम्मू, पुणे, राउरकेला, मदुरै, तिरुअनन्तपुरम, डिब्रुगढ़, विशाखपत्तनम, वास्को(गोवा)बिलासपुर और बेल्लारी	संपूर्ण भारत
(2)	सभी सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय)	संपूर्ण भारत

[फा.सं. जैड-20011/10/2014-बी एल]

बिपिन मलिक, संयुक्त सचिव, महानिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2015

S.O. 1460(E).— In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1616 (E), dated the 16th November, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 16th November 2005, Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below, being Gazette Officers of the Government to be the Registering Officers who shall exercise the powers conferred on Registering Officers by or under the said Act, having jurisdiction as specified in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	Regional Labour Commissioners (Central) Jaipur, Vadodara, Bhopal, Lucknow, Ranchi, Jammu, Pune, Rourkela, Madurai, Thiruvananthapuram, Dibrugarh, Vishakhapatnam, Vasco (Goa), Bilaspur and Bellary	Whole of India
2	All Assistant Labour Commissioners (Central)	Whole of India

[F. No. Z-20011/10/2014-BL]

BIPIN MALLICK, Jt. Secy., Director General (Labour Welfare)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2015

का. आ. 1461(अ).— केंद्रीय सरकार, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 9 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 16 नवंबर, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1617 (अ) तारीख 16 नवंबर, 2005 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को अपील अधिकारियों के रूप में नामित करती है, जो उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत अपील अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता में प्रयोग करेंगे।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) नई दिल्ली के कार्यालय में उप मुख्य श्रमायुक्त नई दिल्ली को छोड़कर सभी उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय)	संपूर्ण भारत
(2)	जयपुर, वडोदरा, भोपाल, लखनऊ, रांची, जम्मू, पुणे, राउरकेला, मदुरै, तिरुअनन्तपुरम, डिब्रुगढ़, विषाखपत्तनम, वास्को (गोवा) बिलासपुर और बेल्लारी	संपूर्ण भारत

[फा.सं. जैड-20011/10/2014-बी एल]

बिपिन मलिक, संयुक्त सचिव, महानिदेशक(श्रम कल्याण)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2015

S.O. 1461(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1617 (E), dated the 16th November, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 16th November 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby nominates the officers mentioned in column (2) of the Table below, to be the Appellate Officers who shall exercise the powers conferred on Appellate Officers by or under the said Act, having jurisdiction as specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	All Dy. Chief Labour Commissioners (Central) except Dy. Chief Labour Commissioners (Central) New Delhi in the office of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi	Whole of India
2	All Regional Labour Commissioners (Central) except Regional Labour Commissioner (Central) Jaipur, Vadodara, Bhopal, Lucknow, Ranchi, Jammu, Pune, Rourkela, Madurai, Thiruvananthapuram, Dibrugarh, Vishakhapatnam, Vasco (Goa), Bilaspur and Bellary	Whole of India

[F. No. Z-20011/10/2014-BL]

BIPIN MALLICK, Jt. Secy., Director General (Labour Welfare)